



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264199
CG-DL-E-27062025-264199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025/आषाढ 6, 1947

No. 378]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025/ASADHA 6, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2025

सा.का.नि. 421(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र सीमा बल योद्धक, निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009 और सशस्त्र सीमा बल, योद्धक उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) समूह 'ख' अराजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, सशस्त्र सीमा बल में निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) और उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योद्धक (सामान्य ड्यूटी), समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2025 है।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **अनुरक्षण.**— इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को भरा नहीं गया प्रत्येक पद शेष रहता है तो प्रत्येक ऐसी रिक्ति जो तत्पश्चात् उदभूत होती है अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी।

6. **ज्येष्ठता.**— काडर के विभिन्न प्रवर्गों या श्रेणियों के पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों की परस्पर-ज्येष्ठता इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे।

7. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. (1) (क) **शारीरिक और चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.**— (i) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग 'शेप-1' में हैं, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजन के लिए, "शेप-1" से निम्नलिखित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(क) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई.) जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए घटकों के अधीन अधिकारी की योग्यता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण:-

एस	-	मनोवैज्ञानिक
एच	-	श्रवणशक्ति
ए	-	उपांग (अपैन्डेजेस)
पी	-	शारीरिक क्षमता
ई	-	दृष्टिशक्ति।

(ख) प्रत्येक घटक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यक्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 तक गिरती कार्य क्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे, सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी-1 में है, वहां उसका प्रवर्ग एस1, एच1, ए1, पी1, ई1 लिखने के बजाय, शेप-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा और इन अंको का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है अर्थात्:-

(i) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(ii) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों और आँखों की श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतर्वलित है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं;

(iii) "एस" घटक के सिवाय, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखण्डों पर और लम्बे कर्तव्यों भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं;

(iv) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य; और

(v) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

(ii) सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शारीरिक मानदंड और चिकित्सा मानदंड निम्नलिखित होंगे:-

(क) शारिरिक मानक:

(i) ऊँचाई: पुरुष के लिए : 170 से.मी.

महिला के लिए: 157 से.मी.

(ii) सीना: पुरुष के लिए:

बिना फुलाए : 80 से.मी.

फुलाने पर : न्यूनतम 5 से.मी.का फुलाव.

महिला के लिए: लागू नहीं होता.

(iii) भार: (पुरुष और महिला के लिए):

चिकित्सा मानदंडों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपातिक।

परंतु ऊँचाई और सीना में शिथिलीकरण नीचे दिए गए अभ्यर्थियों के अनुसार अनुज्ञेय होगा:—

(क) गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊँचाई पुरुषों के लिए 165 से.मी. और महिलाओं के लिए 155 से.मी. होगी और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरुषों के लिए 162.5 से.मी. और महिलाओं के लिए 150 से.मी. होगी।

(ख): गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना 78 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. फुलाने पर) होगा। अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना 76 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. फुलाने पर) होगा।

(ख) चिकित्सा मानदंड: (i) बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा लगाए दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए; और

(ii) अभ्यर्थियों को अन्तर्जानु, सपाट पैर, स्फीत (शिरा) या आंखों से त्रिर्यक नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें मानसिक और शारिरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में व्यवधान की संभावना हो।

“या”

(2) शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) के पद के लिए विहित स्कीम के अनुसार होगा।

9. सीधी नियुक्ति किए गए अभ्यर्थियों को, उनके नियुक्ति की तारीख से परीवीक्षा अवधि के दौरान महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को अर्हित करना होगा, जिसके न हो सकने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

10. अधिवर्षिता.— इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम तारीख के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

11. सेवा का दायित्व.— इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

12. अन्य देशीय अपात्रता:— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात बल में नेपाल या भूटान के नागरिक की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

13. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई, बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1 निरीक्षक (साधारण झूटी)।	1182* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)।

चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में सशस्त्र सीमा बल के ऐसे उप-निरीक्षक (साधारण झूटी) जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात् — (क) जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है; (ख) गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा दी गई छूट के अध्यक्षीन रहते हुए झूटी बटालियन में उप-निरीक्षक के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ग) चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में होना चाहिए।

टिप्पण 1: राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्ति या पदस्थापना या संयोजन के आधार पर कि गई सेवा को प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए अपेक्षित क्षेत्र सेवा के 50 प्रतिशत के रूप में माना जाएगा और ऐसे मामलों में शेष 50 प्रतिशत अनिवार्य सेवा के बाबत कोई छूट नहीं दी जाएगी।

टिप्पण 2: जहां विद्यमान नियमों में विहित प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा को बढ़ाया जा रहा है और इस परिवर्तन से नियमित आधार पर पोषक श्रेणी पदों को धारण करने वाले कुछ व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां पात्रता सेवा नियमित आधार पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख पर समान बनी रहेगी।

टिप्पण 3.— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस के अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रु.) में समतुल्य या सदृश पद धारण किए हुए हैं, जिनके पास चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 है।

टिप्पण 1 .— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 .— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(11)

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन: ऐसे भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन जो सशस्त्र बलों में समान या समतुल्य पंक्ति का पद धारण किए हुए हैं।

टिप्पण: सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास ऊपर प्रोन्नति के लिए यथाविहित अर्हताएं हैं, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:— (1) महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; (2) उपमहानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य; (3) कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. उप-निरीक्षक (साधारण झूटी)।	2472* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)।

(5)	(6)
चयन पद।	आयु 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण .— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समतुल्य।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) तैंतीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (iii) सत्तरह प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सशस्त्र बल के कर्मिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु.) में ऐसे सहायक उप-निरीक्षक (साधारण झूटी) जिन्होंने छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखता हो अर्थात्:-</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण या विभागीय शैक्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हो।</p> <p>(ख) महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर यथा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>(ग) गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा दी गई छूट के अधीन रहते हुए झूटी बटालियन में सहायक-उप-निरीक्षक के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(घ) चिकित्सा प्रवर्ग श्रेणी-1 में होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण 1: जहां विद्यमान नियमों में विहित प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा को बढ़ाया जा रहा है और इस परिवर्तन से नियमित आधार पर पोषक श्रेणी पदों को धारण करने वाले कुछ व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां पात्रता सेवा नियमित आधार पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख पर समान बनी रहेगी।</p> <p>टिप्पण 2.— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता</p>

सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हो:-

टिप्पण 1.- पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(11)

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति: (भूतपूर्व सैनिकों के लिए): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो कि एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिसके पास ऊपर प्रोन्नति के लिए यथाविहित अर्हताएं हों, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा:

अर्हता शर्तें: केवल सहायक उप-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होंगे।

टिप्पण: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार होंगी।

(12)	(13)
<p>समूह 'ख', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) उप-महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष;</p> <p>(2) कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य;</p> <p>(3) उप कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।</p> <p>समूह 'ख', विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) उप-महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष;</p> <p>(2) कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य;</p> <p>(3) उप कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा/सं. 4/3/एसएसबी/सीएससी/बीएन/समुह 'ख'/2020/एसएसएस]

जूही वर्मा, निदेशक, (कार्मिक-समन्वय)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2025

G.S.R. 421(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007) and in supersession of the Sashastra Seema Bal, Combatised Inspector (General Duty) Group 'B' Non-Gazetted post, Recruitment Rule, 2009, and the Sashastra Seema Bal Combatised, Sub-Inspector (General Duty) Group 'B' Non-Gazetted post, Recruitment Rules, 2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (General Duty) and Sub-Inspector (General Duty) in the Sashastra Seema Bal, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Combatised (General Duty), Group 'B' Non-Gazetted posts, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Maintenance.**— Every post remaining unfilled on the date of commencement of these rules and every vacancy that may arise thereafter shall be filled in accordance with the provisions as contained in the Schedule and the procedure as may be prescribed by the Central Government from time to time.

6. **Seniority.**— The inter-se-seniority of officers appointed to the posts in different categories or grades of the cadre shall be determined in accordance with the general orders issued on the subject by the Central Government from time to time.

7. **Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and to other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. (1) (a) **Physical and medical fitness.**— (i) Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in the medical category of SHAPE-I shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation.— For the purpose of this rule, "SHAPE-I" means the following medical category namely:-

(a) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function: -

S	-	Psychological
H	-	Hearing
A	-	Appendages
P	-	Physical Capacity
E	-	Eye-Sight

(b) Functional capacity of an officer under each factor shall be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals shall be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1 and the general evaluation of these numerals are as under:-

(i) Fit for all duties anywhere.

(ii) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes.

(iii) Excepting “S” factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.

(iv) Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.

(v) Permanently unfit for duties.

(ii) Physical standards and medical standard required for direct recruitment shall be as under:-

(a) Physical Standard:

(i) Height: For males : 170 cms.

For female : 157 cms.

(ii) Chest: For males :

Unexpanded : 80 cms.

Expanded : Minimum expansion 5 cms.

For female : Not applicable.

(iii) Weight: (For males and Females):

Proportionate to height and age as per medical standards:

Provided that the relaxation shall be permissible in height and chest to the candidates as follows:-

(A) the minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh shall be 165 cms. for males and 155 cms. for females and the minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes shall be 162.5 cms. for males and 150 cms. for females.

(B): the minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh shall be 78 cms. (minimum 5 cms. expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to the Scheduled Tribes shall be 76 cms. (minimum 5 cms. expansion).

(b) Medical standards: (i) the minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses; and

(ii) the candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision and they must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties.

“OR”

(2) Physical and Medical standards as per the scheme prescribed by the Central Government for the post of Sub Inspector (General Duty) in Central Armed Police Forces from time to time.

9. The candidates on direct appointment shall, qualify basic training course or courses as prescribed by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time, within probation period from his/her date of appointment, failing which his/her service is liable to be terminated.

10. **Superannuation.**- A person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that a person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

11. **Liability of service.**- Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

12. **Ineligibility of non-citizen.**- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

13. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector (General Duty).	1182* (2025) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) By promotion, failing which by deputation; (ii) For ex-servicemen: By deputation or re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

Promotion: Sub-Inspector (General Duty) of the Sashastra Seema Bal with five years regular service in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) and possessing the following qualifications and experience, namely:-

- (a) who have successfully completed pre-promotional course or courses as specified by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time;
- (b) two years regular service as Sub-Inspector in duty battalion, subject to relaxation granted by Director General, Sashastra Seema Bal as per guidelines issued by the Ministry of Home Affairs from time to time; and
- (c) shall be in medical category SHAPE-I.

Note 1: The service rendered on deputation or posting or attachment basis in a National Level Training Institutions shall be treated as 50 per cent. of the required field service for the purpose of promotion and no relaxation in respect of the remaining 50 per cent. mandatory service shall be granted in such case.

(11)

Note 2: Where the eligibility service for promotion prescribed in the existing rules is being enhanced and the change is likely to affect adversely some persons holding the feeder grade posts on regular basis then the eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service to two years, whichever is less and have successfully completed

their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation: Officers of the Central Police Organisations or States or Union territories Police holding equivalent or analogous posts in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) having Medical Category SHAPE-I.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of application.

Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Re-employment for Ex-Servicemen: Re-employment of ex-servicemen who have held the same or equivalent rank in the Armed Forces.

Note: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications as prescribed for promotion above shall also be considered, such person would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Inspector General, Sashastra Seema Bal : Chairman; (2) Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal : Member; (3) Commandant, Sashastra Seema Bal : Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Sub-Inspector (General Duty).	2472* (2025) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.

(5)	(6)
Selection post.	Between 20 and 25 years of age (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)
Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	(i) 33 per cent. by direct recruitment; (ii) 50 per cent. by promotion failing which by deputation; and (iii) 17 per cent. by Limited Departmental Competitive Examination, failing which by promotion and failing both by deputation/ re-employment of Armed Forces personnel.

(11)
<p>Promotion: Assistant Sub-Inspector (General Duty) with six years regular service in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix and possessing the following qualifications and experience, namely :-</p> <p>(a) Matriculation or 10th Class pass from a recognised board or have passed departmental 1st class educational examination;</p> <p>(b) who have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time;</p> <p>(c) two year regular service as Assistant Sub-Inspector in duty battalion, subject to relaxation granted by Director General, Sashastra Seema Bal as per guidelines issued by Ministry of Home Affairs from time to time; and</p> <p>(d) shall be in Medical Category SHAPE-I.</p>

(11)
<p>Note 1: Where the eligibility service for promotion prescribed in the existing rules is being enhanced and the change is likely to affect adversely some persons holding the feeder grade posts on regular basis then the eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officer of the Central Government or State Government or Union territories Police Organisations holding analogous post on regular basis having Medical Category SHAPE-I and possess the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Deputation/ Re-employment (for ex-servicemen): The Armed Forces personnel who have held the same or equivalent rank in the Armed Forces due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications as prescribed for promotion above shall also be considered, such person would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Limited Departmental Competitive Examinations :</p> <p>Eligibility conditions : Assistant Sub-Inspector (General Duty) only shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination.</p> <p>Note: The educational qualifications and other eligibility conditions for the Limited Departmental Competitive Examinations shall be as per the scheme prescribed by the Central Government from time to time.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal :Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Sashastra Seema Bal :Member;</p> <p>(3) Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal :Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal :Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Sashastra Seema Bal :Member;</p> <p>(3) Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal : Member.</p>	<p>Not applicable</p>

[F/No.4/3/SSB/CSC/Bn/Gp. 'B'/2020/SFS]

JUHI VERMA, Director (Pers & Coord)